



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, अक्टूबर 9—अक्टूबर 15, 2016, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1938

No. 25] NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2016, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2016

का.नि.आ. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिविलियन यांत्रिक परिवहन चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उसका संबंध सिविलियन यांत्रिक परिवहन चालक (विशेष श्रेणी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में सिविलियन यांत्रिक परिवहन चालक (विशेष श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना, सिविलियन यांत्रिक परिवहन चालक (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सिविलियन यांत्रिक परिवहन चालक (विशेष श्रेणी)	80* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	लेवल-6	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोनन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 में ऐसे सिविलियन यांत्रिक परिवहन चालक श्रेणी-1 जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसने निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) प्रधान निदेशक (कार्मिक सिविलियन) वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त निदेशक (एम टी) यांत्रिक परिवहन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय - सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन, (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. एयर एचक्यू/23049/सिविलियन एम टी डी (एस जी)/पीसी-3/363/भ.नि./र.(नि.)/2016]

अनिल कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd October, 2016

S.R.O. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Civilian Mechanical Transport Drivers (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003, in so far as the posts of Civilian Mechanical Transport Driver (Special Grade) is concerned, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Civilian Mechanical Transport Driver (Special Grade) in the Indian Air Force, namely,—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Air Force Civilian Mechanical Transport Driver (Special Grade) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of the posts, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and educational qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Civilian Mechanical Transport Driver (Special Grade)	80* (2016) * Subject to variation dependant on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Civilian Mechanical Transport Driver Grade I, in the Level-5 of Pay Matrix, with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2016 or the date from which the revised pay structure based on the seventh central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the pay commission.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>1) Principal Director (Personnel Civilians), Air Headquarters - Chairman</p> <p>(2) Joint Director (MT), Directorate of Mechanical Transport, Air Headquarters - Member</p> <p>(3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. Air HQ/23049/Civilian MTD(SG)/PC-3/363/RR/D(Appts)/2016]

ANIL KUMAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.नि.आ. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (साधारण भंडारी, उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी) और भंडारी श्रेणी-2) भर्ती नियम, 1992 को अधिकांत करते हुए, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों में उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी) और भंडारी श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी) और भंडारी श्रेणी-2 (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**— वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी)	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : 1900 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसा भंडारी श्रेणी- 2 जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण

किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने 1900 रु. या समतुल्य के ग्रेड वेतन के पद

पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और

अनुभव है :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में

डिग्री या समतुल्य अर्हता, या

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

अर्हताएं।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से बहीखाता और

लेखा कर्म में प्रमाणपत्र या किसी मान्यताप्राप्त

स्थापन से बहीखाता और लेखाकर्म में दो वर्ष

का व्यावहारिक अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1. उप निदेशक/ ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव (स्थापना/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय।
- अध्यक्ष

2. संयुक्त बीज लेख ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना) में से प्रत्येक से एक उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का एक अधिकारी। - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडारी श्रेणी-2	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>आमेलन : वेतन बैंड 1, 5200 -20200 रु. ग्रेड वेतन 1800 रु. में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन के ऐसे नियमित रूप से नियुक्त समूह 'ग' (तत्कालीन समूह 'घ') कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :-</p> <p>(i) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य; और</p> <p>(ii) भंडारी के रूप में या भंडार लेखाकर्म और अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण : संयुक्त सचिव (स्थापना/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) के कार्यालय द्वारा प्रबंधित काडर और बाह्य काडर पदों से संबंधित कर्मचारी विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/34012/मुप्रअ/भर्ती-2]

अमर नाथ सिन्हा, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 29th September, 2016

S.R.O. 46.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations (General Store Keeper, Upper Division Clerk Stores (Night Shift) and Store Keeper Grade II) Recruitment Rules, 1992, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk Stores (Night Shift) and Store Keeper Grade II in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air). Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations under the Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations Upper Division Clerk Stores (Night Shift) and Store Keeper Grade II (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** — No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk Stores (Night Shift)	01 * (2016) * Subject to variation dependent on workload etc.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400.	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: - Store Keeper Grade II in the Grade Pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation:- Officers under the Central Government or State Government or Union territory administration.-	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: - 1. Deputy Director/Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary (Establishment/Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman. 2. An Officer of the status of Deputy Director or equivalent each from Joint Cipher Bureau, Ministry of Defence and Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air) - Members.	Not applicable.

<p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with eight years regular service in the post in the Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience: -</p> <p>(i) degree in Commerce from a recognised University or equivalent qualification</p> <p>or</p> <p>degree of a recognised University or equivalent qualifications.</p> <p>(ii) Certificate in Book Keeping and Accountancy from a recognised Institute or two years practical experience in Book Keeping and Accountancy from a recognised establishment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store Keeper Grade-II	01* (2016) * Subject to variation dependent on workload etc.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial.)	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By absorption

(11)	(12)	(13)
Absorption: - Regularly appointed Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees of Integrated Headquarters of Ministry	Not applicable	Not applicable.

<p>of Defence (Army, Navy and Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations in the pay band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.1800 with three years regular service and possessing the following qualifications:-</p> <p>(i) Matriculation or equivalent; and</p> <p>(ii) One year experience as Store Keeper or in Store Accountancy and Maintenance</p> <p>Note: Employees belonging to the cadre/ex-cadre posts managed by the Office of the Joint Secretary (Establishment/Chief Administrative Officer) shall be eligible for consideration.</p>		
--	--	--

[F. No. A/34012/CAO/R-II]

AMAR NATH SINHA, Dy. Chief Administrative Officer